



प्रिय रोगी,

नॉर्थईस्ट अस्पताल निगम, विनचेस्टर अस्पताल और लहे क्लिनिक अस्पताल, इंक वित्तीय सहायता आवेदन संलग्न है। कृपया इसे पूरी तरह भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाएं। अधूरे आवेदनों को वित्तीय सहायता से वंचित किया जा सकता है।

आवेदन वापस करने की समय सीमा जिन सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा रहा है, उनके पहले बिल की तारीख से 240 दिन की है।

नॉर्थईस्ट अस्पताल निगम, विनचेस्टर अस्पताल और लहे क्लिनिक अस्पताल, इंक और इसके सहयोगी उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी सहायता की आवश्यकता है और जिनका बीमा नहीं है, किसी सरकारी सहायता के लिए अपात्र हैं या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के कारण चिकित्सकीय सहायता के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया नीचे लिखे नंबर पर वित्तीय परामर्श के लिए संपर्क करें।

धन्यवाद।

आवेदन जमा करवाएं :

वित्तीय परामर्श विभाग
लहे अस्पताल एंड मेडिकल सेंटर
41 माल रोड
बर्लिंगटन, MA 01803
781-744-8815

चैरिटी केयर के लिए वित्तीय सहायता आवेदन

कृपया प्रिंट करें

आज की तारीख: _____

सामाजिक सुरक्षा #: _____

मेडिकल रिकॉर्ड नंबर: _____

रोगी का नाम: _____

पता: _____

सड़क

अपार्टमेंट नंबर

शहर

राज्य

ज़िपकोड

अस्पताल सेवाओं की तारीख: _____ रोगी की जन्म तिथि: _____

क्या अस्पताल सेवा के समय रोगी का स्वास्थ्य बीमा या मेडिकेड**था?

हाँ नहीं

यदि "हाँ", बीमा कार्ड की एक प्रति संलग्न करें (आगे और पीछे) और निम्नलिखित को पूरा करें:

बीमा कंपनी का नाम: _____ पॉलिसी क्रमांक: _____

प्रभावी तिथि: _____

बीमा फोन नंबर: _____

** वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने से पहले, आपने पिछले 6 महीनों में मेडिकेड के लिए आवेदन किया होना चाहिए और आपको आवेदन निरस्त का प्रमाण दिखाना होगा।

नोट: अगर स्वास्थ्य बचत खाता (HSA), स्वास्थ्य प्रति -पूर्ति खाता (HRA), फ्लेक्सिबल खर्च खाता (FSA) या इसी तरह के फंड परिवार चिकित्सा खर्च के लिए नामित किया गया हो तो वित्तीय सहायता तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक वैसे सारे स्रोत क्षय नहीं हो जाते।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित को भरें:

18 वर्ष से कम आयु के रोगी, माता-पिता, बच्चों और / या भाई-बहनों, प्राकृतिक या दत्तक सहित परिवार के सभी सदस्यों की सूची बनाएं।

परिवार का सदस्य	आयु	रोगी के साथ संबंध	आय का स्रोत या नियोक्ता का नाम	मासिक सकल आय
-----------------	-----	-------------------	--------------------------------	--------------

1.				
2.				
3.				
4.				

वित्तीय सहायता आवेदन के अलावा हमें इस आवेदन के साथ निम्नलिखित

दस्तावेज भी संलग्न करें:

- वर्तमान राज्य या संघीय आयकर रिटर्न

- वर्तमान फॉर्म W2 और / या फॉर्म 1099
- चार सबसे हाल के पेरोल स्टेस
- चार सबसे हाल की मांग और / या बचत खाता विवरण
- स्वास्थ्य बचत खाते
- स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति व्यवस्था
- लचीले व्यय खाते

यदि ये उपलब्ध नहीं हैं, तो कृपया अन्य दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए वित्तीय परामर्श इकाई (781) 744-8815 पर कॉल करें।

नीचे मेरे हस्ताक्षर से, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने वित्तीय सहायता नीति और आवेदन को ध्यान से पढ़ा है और मैंने जो कुछ भी कहा है या जो कोई दस्तावेज मैंने संलग्न किये हैं वह मेरी जानकारी में सही है। मैं समझता हूं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जान बूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना गैर कानूनी है।

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

रोगी के साथ संबंध: _____

पूर्णतिथि: _____

यदि आप की आय किसी भी तरह से पूरक है या आपने इस आवेदन पर \$ 0.00 आय की सूचना दी है, तो आपके और आपके परिवार को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा नीचे दिए गए समर्थन बयानको भरवाएं।

समर्थन बयान

मुझे रोगी / जिम्मेदार पार्टी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले के रूप में निश्चित किया गया है। नीचे सेवाओं और सहायता की एक सूची है जो मैं प्रदान करता हूं।

मैं इस बात को प्रमाणित और सत्यापित करता हूं कि दी गई सभी जानकारी मेरे जान के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूं कि मेरे हस्ताक्षर मुझे रोगी के चिकित्सा व्यय के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार नहीं बनाएंगे।

हस्ताक्षर: _____ पूर्ण तिथि: _____

कृपया पात्रता निर्धारण के लिए पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों का समय दें।

यदि पात्र हैं, तो अनुमोदन की तारीख से छह महीने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और यह सभी बेथइजराइल लहे स्वास्थ्य सहयोगियों के लिए मान्य है : उनके संबंधित परिशिष्ट 5 में निर्धारित वित्तीय सहायता नीतियाँ:

- एना जैक्स अस्पताल
- एडिसन गिल्बर्ट अस्पताल
- बेयरिज अस्पताल
- बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर -बोस्टन
- बेथ इजराइल डेकोनेस मिल्टन
- बेथ इजरायल डीकोनस नीधम
- बेथ इजराइल डेकोनेस प्लायमाउथ
- बेवर्ली अस्पताल
- लहे हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर, बर्लिंगटन
- लहे मेडिकल सेंटर, पीबॉडी
- माउंट ऑर्बर्न अस्पताल
- न्यू इंग्लैंड बैपटिस्ट अस्पताल
- विनचेस्टर अस्पताल

स्टाफ के लिए	
आवेदन प्राप्त कर्ता:	
AJH	<input type="checkbox"/>
AGH	<input type="checkbox"/>
बेयरिज	<input type="checkbox"/>
BIDMC	<input type="checkbox"/>
BID मिल्टन	<input type="checkbox"/>
BID नीधम	<input type="checkbox"/>
BID प्लायमाउथ	<input type="checkbox"/>
बेवर्ली	<input type="checkbox"/>
LHMC	<input type="checkbox"/>
LMC पीबॉडी	<input type="checkbox"/>
MAH	<input type="checkbox"/>
NEBH	<input type="checkbox"/>
WH	<input type="checkbox"/>
दिनांक:	